

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, संमवार, फरवरी 16, 1970/माघ 27, 1891

No. 25]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 1970/MAGHA 27, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 1970

G.S.R. 237/Sugar Export.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 4 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), G.S.R. No. 235/Sugar Export dated the 3rd February, 1969, as subsequently amended vide Notification No. G.S.R. 2609/Sugar Export dated the 6th November, 1969, namely:—

In the said Notification, for the figures and words "28th day of February 1970", the figures and words "30th day of April 1970" shall be substituted.

[No. F. 10-3/68-SEXP.]

K. L. PASRICHA, Jt. Secy.

(95)

